

शशुदरे कुनुड वलईवले  
उडहलर

कललीस  
सलल



ललथलकुकुने: Edward Hughes

दुवलरल ककुरलतल: Janie Forest  
Alastair Paterson

अडडलडुडलकुकुतल: Lyn Doerksen


अनुवलदतल: Sonu Rahi

दुवलरल उतुडलदतल: Bible for Children  
www.M1914.org

©2025 Bible for Children, Inc.


लललसनुस: आडनलर कलकुकु ऐल गनुडडुडल कडडल वल डुरनलडुड कुरलर अडकलर आकुकु,  
डतकुकुषण नल आडनल ऐडुड कुरवने नल।

1



कड डुरडेशुवर इसुललऐललन के डकल के डलसु से  
डहलरसुल ले अलथुन तऱ, डूसल आरलधनल डुं  
लुगवन के अगुआई कलन। उ आरलधनल के ऐगु  
गलत डु डनलन। "हड डहुवल के गलत गडुडु कहे  
कल उ डहलडुरतलडु ठहरलन हे। "डुरडेशुवर इसुललऐल ललगु  
कतनल डडकल-डडकल कलड कलथलन हल। सडुडे ललगु  
डूसल गलत गलन।

हललललुडुडलह डुरडेशुवर  
के डलहलडुडल हु!



2

जब में तीन दिन के बाद  
पियासल लोगवन के एगो कुंड मिलल।  
बाकि ओखनी, उ खारा पानी के पी न  
सकलथिन। प्रार्थना करे के बजाय,  
लोगवन सिकाईत कैलन।

परमेश्वर बहुत दयालु  
हलथिन। उ पानी के पिये  
लायक बना देलथिन।

3



अइसन लगऽ हे कि लोगवन सभ्भे कुछ  
लागी सिकायत कैलन हल। "हमरा  
भीर मिन्न में खाय लागी हल। उ रोबे  
बिलखे लगलन," कि हमनी रेगिस्तान में भूखल मर जाम।  
ओही साँझ के परमेश्वर ओखनी के बिच में भीर भेजलन।  
लोगवन ओकरा आसानी से पकड़ सकऽ हललथिन हल।


4

अगला सुबह में परमेश्वर मन्ना भेजलथिन। इ एगो अइसन  
रोटी हल जोन मध के पूआ जइसन खाई में लगऽ हल। सभ्भे  
दिन बिहने मन्ना तैयार  
जमीन पर गिरल रहऽ  
हल कि बटोर सके। अईसे

ही परमेश्वर रेगिस्तान  
में अपन लोगवन के  
खिलैलथिन।


5

ओखनी हर दिन खाय लागी परमेश्वर पर भरोसा कर हलन।  
बाकि कुछ लोगवन जरूरी से जादे मन्ना जामा कैलन, हिंया  
ले। परमेश्वर कहलथिन हल कि उ दूसरा दिन ले न बचतो।



6


खाली सबत के दिन के छोड़ के, जरूरी मन्ना के अलावे, बीतल  
दिन के बटोरल मन्ना पिल्लू से भर जा हलई। इ खास सतमा  
दिन के लोगवन अराम करऽ हलन आउर बीते रात के  
बटोरल मन्ना खा हलन।



7

परमेश्वर  
रेगिस्तान में  
इस्त्राएलिअन के  
अच्छा से देख भाल  
कैलथिन। उ ओखनी के  
खाना आउर पानी देलन आउर  
दुसमनमन से  
रक्षा भी  
करलन  
करलन।

जखनी अमालेकिअन उनखनी  
पर हमला कैलन, त लगातार  
इस्त्रायल के जीत मिलते रहल।  
ई जखनी ले होल  
तखनी ले मूसा  
परमेश्वर के लाठी  
के उपर उठैले  
रहलन हल।




8



परमेश्वर इस्राइलिन से कहलथिन,  
 "जदी तू हमर बात के मानबऽ त तोहनी हमर अपन अदमी  
 होबऽ। "सभ्भे कोय मूसा से कहलक," परमेश्वर जे कुछ हमनी  
 से कहथिन हमनी ओही करबई। उ सब सिनै पहाड़ के  
 निचे अईलन आउर असरा देखे लगलन जब ला  
 मूसा परमेश्वर से मिले लागी उपर गेलन।

9



मूसा चालीस  
 दिन ला पहाड़  
 पर परमेश्वर के  
 जौरे हलन।  
 परमेश्वर पत्थर  
 के दुगो सिलेट पर  
 दसगो आज्ञा  
 लिखलन। उ मूसा  
 के बतैलथिन कि  
 ऊ अपन लोगवन  
 के जीवन कैसन  
 चाहऽ हथिन।

10

1. "तू हमरा छोड़ के  
 दूसरा के ईश्वर करके  
 न मानीहऽ।"

2. "अपना लागी कोय  
 मूरत न बनैहऽ आउर  
 न झुक के प्रणाम  
 करिहऽ।"

3. "तू अपन परमेश्वर के  
 नाम बेकार में न लिहऽ।"

4. "तू आराम वाला दिन  
 के पवित्र मानावे लागी  
 याद करिहऽ।"

5. "तू अपन बाबुजी  
 और माय के आदर  
 करिहऽ।"

11

6. "तू कोय के जान  
 से न मारिहऽ।"


7. "तू व्याविचार  
 न करिहऽ।"

8. "तू चोरी न करिहऽ।"

9. "तू झुठो गवाही  
 न दिहऽ।"


10. "तू लालच  
 न करिहऽ।"

12



जखनी मूसा सीनै पहाड़ पर  
 परमेश्वर के जौरे हलन त  
 इस्राइलिन कुछ दुःख भरल  
 काम कैलन। ओखनी हारून  
 के एगो सुन्दर बछड़ा बनावे  
 लागी कहलन आउर  
 ओखनी परमेश्वर के जगह  
 पर ओकर पूजा कैलन।  
 परमेश्वर ओखनी से बहुत  
 नराज हलथिन। आउर फिन  
 मूसा भी।


13



जखनी मूसा उ बछड़ा  
 आउर लोगवन के नाचते  
 देखलन। उ पत्थर के सिलेट  
 के जमीन पर पटक के फोर  
 देलन। गुस्सा में मूसा ऊ  
 सुन्दर कहलायवाला मूरत  
 के नष्ट कर देलन। जेकरा  
 ओखनी पूजा कैलन हल उ  
 दुष्ट अदमियनो के भी  
 नष्ट कर देलन।

14

परमेश्वर उ दुगो पथल के सिलेट के फिन से देलन। उ मूसा से एगो रहे वाला जगह बनाबे लागी कहलथिन, जोन चारो दने घेरा के साथे एगो बड़का तम्बू जहाँ परमेश्वर उनखर लोगवन के बिच में रहथिन। ओंखनी के हूँआ परमेश्वर के आराधना करे के हलई। परमेश्वर के मौजूदगी के बादर आउर आग के खम्भा देखाबऽ हल।



15

कनान देश के नगीच पहुंचे, परमेश्वर दुआरा करल देश के देखे लागी मूसा बारहगो जासुसबन के भेजलन। सभ्भे जसूसबन इ में सहमती होल कि देश बहुत सुन्दर हे! बाकि खाली दुगो यहोसू आउर कालेब, ही विश्वास कैलन कि परमेश्वर के मदत से इ देश के जीतल जा सकऽ हे।



16


दोसरा दसगो जासूस उ देश के बरियार शहरवन आउर बाहुबलीयन से डरऽ हलन। "हम उ देश के जीत न सकऽ ही," उ रोलन। परमेश्वर मिस्र में से ओंखनी के काईसे अजाद कैलन, इ महान



17

बतीया के उ भुला गेलन हल।

लोगवन उ दस अविस्वासीअन जसूसबन के बात पर विश्वास कैलन। उ रोबे आउर वापस मिस्र में लौटे लागी तैयार होबे लगलन। ओंखनी सब मूसा के जान से मारे के कोसिस भी कैलन!



18

परमेश्वर मूसा के जान बचैलथिन। त उ लोगवन से कहलन, "तोहनी सभ्भे चालीस साल तक जंगल में भटकबऽ। खाली कालेब, जोसुआ, आउर उनखर वंश जीवित रहथिन आउर उ जासूसी करते देश में प्रवेश कर सकऽ हथन।



19

चालीस साल

ঐশ্বরর বাক্য, বাইबলে থেকে একটি গল্প,

पाওয়া যায়


निर्गमन 15 से गिनती 14 तक

"তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দেয়।"  
গীতসংহতি 119:130

20

# দ্য এন্ড

12



60

21

এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বসিময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে  
যনি আমাদের তরৈ করছেন এবং যনি চান আপনি তাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খাপ কা জ করছে, যাকে তনি পাপ বলছেন। পাপরে  
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালো বাসনে তনি তাঁর একমাত্র  
পুত্র, যীশুকে করুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্য শাস্তি পতে  
পার্থয়িছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়ে স্বরগে চলে গলেনে! আপনি যদি  
যীশুতে বশিাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্ষমা চান, তনি তা  
করবনে! তনি আসবনে এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবনে, এবং আপনি  
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবনে।

যদি আপনি বশিাস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:  
প্রয়ি যীশু, আমি বশিাস করি যে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্য  
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।  
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি  
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে  
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে  
আপনার জন্য বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ন এবং প্রতদিন ঈশ্বররে সাথে কথা বলুন! জন 3:16

22